



## प्रेस नोट थाना बरहन जनपद आगरा

**थाना बरहन पुलिस टीम द्वारा हार जीत की बाजी लगाने वाले 02 जुआरियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 10,100 रुपये व अन्य सामान बरामद...**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार थाना क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी करने, जुआ, सट्टा व परिवहन, निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बरहन को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 01.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ जुआरी हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है।

### पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये गये स्थान पर चारों ओर से घेर घोट कर एक बारगी दबिश देकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे व फड़ से 10,100 रुपये, 52 ताश के पत्ते व 04 अदद मोटर साइकिल बरामद की गयी। इस सम्बन्ध में थाना बरहन पर मु0अ0सं0 129/21 धारा 13जी एक्ट ( जुआ) पंजीकृत किया गया।

### ➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी नगला ताज थाना बरहन जनपद आगरा।
02. रामचरन पुत्र ऐलन सिंह निवासी ओमकारपुर थाना एत्मादपुर जनपद आगरा।

### ➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. थानाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह थाना बरहन जनपद आगरा।
02. उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना बरहन जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना बरहन जनपद आगरा।
04. है0कां0 योगेन्द्र सिंह, कां0 कपिल कुमार, कां0 पवन कुमार थाना बरहन जनपद आगरा

**मीडिया सेल जनपद आगरा।**

